



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

No. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2007/आश्विन 23, 1929

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2007/ASVINA 23, 1929

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 15 अक्टूबर, 2007

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/105515/2007.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एम.ई.एस. डॉ. पी.के. अब्दुल गफ्फूर मेमोरियल कल्चरल कॉम्प्लेक्स, 36/1565, चौथी मंजिल, जजसेस एवेन्यू, कलूर, कोचीन-682017 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 8 नवम्बर, 2007 को प्रारम्भ होने वाली और 7 नवम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में सविदाओं की बाबत इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्याधीन प्रदान करता है :

“एक्सचेंज केवल भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निपटान गारंटी निधि/व्यापार गारंटी निधि के प्रचालनगत होने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ करेगा।”

जी. अनंतरामन्, पूर्णकालिक सदस्य

[सं. विज्ञापन-3/4/असा./692 बी/07]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th October, 2007

F. No. SEBI/LE/105515/2007.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Cochin Stock Exchange Ltd. having its registered office at MES Dr. P. K. Abdul Gafoor Memorial Cultural Complex, 36/1565, 4th Floor, Judges Avenue, Kaloor, Cochin-682017 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 8th day of November, 2007 and ending on the 7th day of November, 2008 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed hereafter :

“The Exchange shall commence trading only after the operationalisation of Settlement Guarantee Fund/Trade Guarantee Fund duly approved by SEBI.”

G. ANANTHARAMAN, Whole-time Member

[No. ADVT-III/IV/Exty./692B/07]